

CBSE 12th 2024 Compartment Hindi (Elective)Set-1 (29/S/1) Solutions

खण्ड अ
(बहुविकल्पी/वस्तुपरक प्रश्न)

Q.1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए :

सुख तथा दुख में साथ देने वाला तथा समान क्रिया वाला मित्र कहलाता है। वस्तुतः, मित्रता दो हृदयों को बाँधने वाली प्रेम की डोर है। मनुष्य जीवन के पथ पर एकाकी चलने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसे ऐसे व्यक्ति की खोज रहती है जो उसके हर्ष और विषाद में साथ देने वाला हो, जिसके सामने वह मन-प्राणों की कोई लिपि गुप्त न रहने दे, जिसके ऊपर अपने विश्वास की दीवार खड़ी कर सके। अतः मित्रता मन की वह प्यास है जिसके लिए मनुष्य तड़पता रहता है और वह व्यक्ति बड़ा ही भाग्यवान् है जिसकी यह प्यास बुझ जाती है। इसलिए मित्रता का बड़ा गुणगान किया जाता है। बाइबिल में कहा गया है कि 'एक विश्वासी मित्र जीवन के लिए महौषध है'। सच्चे मित्र जीवन में आनन्द की वर्षा करते हैं। सन्मित्र जीवन के निराधार सागर में सुदृढ़ कर्णधार की भाँति प्रेम नाव लेकर उस पार लगा देते हैं। किन्तु यदि मित्रता असली हो तब तो वह स्वर्गीय प्रकाश है, यदि नकली हो तो नारकीय अंधकार। सच्ची मित्रता फॉस्फोरस की तरह ज्योति फैलाकर मित्र के संकट के अंधकार को क्षणभर में दूर कर देती है। सज्जनों से मित्रता की छाया दोपहर के बाद की छाया की तरह बढ़ती जाती है। इसके विपरीत दुष्टों से मित्रता सुबह की छाया की तरह पहले तो काफी बड़ी लगती है लेकिन बीच दोपहर में ही छोटी हो जाती है। अतः मित्र के चयन में सावधानी रखनी चाहिए। सच्चा मित्र, मित्र की सदा भलाई चाहता है, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है। वह बराबर अपने मित्र को बुरे मार्ग पर जाने से रोकता है तथा सुपथ पर चलाने का प्रयास करता है। ठीक इसके विपरीत कपटी मित्र बड़े घातक होते हैं, उनकी मित्रता केवल शब्दों की मित्रता होती है। ये मित्र को ललकारकर आगे तो बढ़ा देते हैं किन्तु पीछे से लंगी मारने में इन्हें न संकोच होता है और न लाज ही लगती है। मित्रों के पास ये तभी तक मँडराते रहते हैं जब तक उनके पास लुटाने को पैसे होते हैं किन्तु दीनता और संकट में साथ छोड़ देते हैं। ऐसे मित्रों को उस कुंभ के समान छोड़ देना चाहिए जिसके ऊपर तो दूध हो और नीचे विष भरा हो। वे सचमुच भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई सच्चा मित्र मिल जाता है। समान पुरुषों की मिताई हो

जाय तो अच्छा, किन्तु यदि असमान स्थिति वाले सहृदय लोगों में वह मित्रता हो तो क्या कहना !

(i) गद्यांश के अनुसार मानव को जीवन में मित्र की तलाश क्यों रहती है ?

- (A) दुख दूर करने के लिए
- (B) दो हृदयों को बाँधने के लिए
- (C) एकाकी जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए
- (D) कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन के लिए

(ii) सच्ची मित्रता का क्या लक्षण है ?

- (A) मित्र के गुणों का बखान करना
- (B) सुख-दुख में साथ निभाना
- (C) जीवन में आनंद की वर्षा करना
- (D) मित्र के साथ हास-परिहास करना

(iii) गद्यांश के अनुसार सज्जनों की मित्रता है :

- (A) सुबह की घनी छाया
- (B) दोपहर की छोटी छाया
- (C) दोपहर बाद की छाया
- (D) रात्रि की घनी छाया

(iv) 'दुर्जनों की मित्रता रूपी छाया दोपहर में ही छोटी हो जाती है।' आशय है : इस कथन का

- (A) इनकी मित्रता कुछ समय के लिए ही होती है।
- (B) संकट आते ही दुर्जन मित्र को बीच में छोड़ देते हैं ।
- (C) दोपहर की छाया दुर्जनों के समान होती है।
- (D) दोपहर का ताप दुर्जनों के समान कष्टदायी है।
- (v) वास्तविक मित्रता के लिए गद्यांश में कहा गया है :
 - (A) स्वर्गीय आभा
 - (B) स्वर्गीय सुमन
 - (C) नारकीय अंधकार
 - (D) स्वर्गीय प्रकाश

(vi) गद्यांश के आधार पर मित्रता कैसी होनी चाहिए ?

- (A) दोपहर में ही कम हो जाने वाली धूप की तरह

- (B) दोपहर के बाद की छाया की तरह
- (C) सुबह की भरपूर छाया की तरह
- (D) दिनभर की छाया की तरह बढ़ती-घटती

(vii) 'पीछे से लंगी मारना' का अर्थ है :

- (A) लाठी मारना
- (B) बाधा उपस्थित करना
- (C) तलवार चलाना
- (D) धोखा देना

(viii) गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है ?

- (A) सच्चा मित्र संकटों के पहाड़ को दूर करता है।
- (B) मित्र के दुख में दुखी न होने वाले व्यक्ति को देखने से पाप लगता है।
- (C) सच्चा मित्र अपने दुख से बड़ा मित्र का दुख मानता है।
- (D) मित्र की इच्छानुसार काम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र है।

(ix) गद्यांश में दीनता और संकट में साथ छोड़ने वाले मित्र की तुलना की गई है :

- (A) नीचे विष ऊपर दूध से भरा कुंभ
- (B) विष से भरा पूरा कुंभ
- (C) दूध से भरा पूरा कुंभ
- (D) नीचे दूध और ऊपर विष से भरा कुंभ

(x) गद्यांश में उत्तम मित्रता मानी गई है :

- (A) असमान व्यक्तियों के बीच होने वाली
- (B) समान व्यक्तियों के बीच होने वाली
- (C) समान-असमान व्यक्तियों के बीच होने वाली
- (D) दो अनजान व्यक्तियों के बीच होने वाली

Solution. (i) (C) एकाकी जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए

(ii) (B) सुख-दुख में साथ निभाना

(iii) (C) दोपहर बाद की छाया

(iv) (A) इनकी मित्रता कुछ समय के लिए ही होती है।

(v) (D) स्वर्गीय प्रकाश

(vi) (B) दोपहर के बाद की छाया की तरह

(vii) (D) धोखा देना

(viii) (C) सच्चा मित्र अपने दुख से बड़ा मित्र का दुख मानता है।

(ix) (A) नीचे विष ऊपर दूध से भरा कुंभ

(x) (B) समान व्यक्तियों के बीच होने वाली

Q.2. निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए :

जब-जब दुख की रात घिरी तब-तब मैं गाना खुलकर गाता रहा, अँधेरे में स्वर मेरा और उदात्त हो गया, सीखा नहीं छिपाना मैंने मन के भाव, देखकर घोर अँधेरा । दीप स्वरो के पथ पर रखता मैं एकाकी बढ़ता रहा, रुका कब ? इनकी उनकी आशा मुझे नहीं थी विषपायी था, कभी सुधा की चाह नहीं की, न ही अमरता की परिभाषा गढ़ने बैठा, डर क्या है, अब वह भी बीते जो बाकी है, आघातों प्रत्याघातों में नया सत्य आएगा, हार नहीं मैं जीते जी मानूँगा, और लड़ूँगा उत्पातों में दुख के गाने कंठ-कंठ के हैं पहचाने सबके प्राण तड़पते हैं जाने-अनजाने ॥

(i) पद्यांश में कवि ने मन के भावों को क्या माना है ?

(A) बादलों की गड़गड़ाहट

(B) घोर अँधेरा

(C) संगीत की ध्वनि

(D) जल प्रवाह

(ii) कवि ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया :

(A) डरकर

(B) गाकर

(C) खुलकर

(D) रोककर

(iii) घोर अँधेरी रात देखकर कवि ने क्या किया ?

- (A) मार्ग प्रशस्त करने के लिए अकेला ही आगे बढ़ गया ।
- (B) अपने-परायों से सहायता की उम्मीद की ।
- (C) अंधकार से भयभीत होकर पीछे हट गया ।
- (D) अपने-परायों की सहायता से आगे बढ़ गया ।

(iv) कवि ने अमृत की चाह क्यों नहीं की ?

- (A) उसे अमृत दुखदायी लगता था ।
- (B) वह विष पीने का आदी था ।
- (C) उसे अमृत अच्छा नहीं लगता था ।
- (D) वह अमर नहीं होना चाहता था ।

(v) "आघातों-प्रत्याघातों में" का आशय है :

- (A) विघ्न बाधाओं में
- (B) वाद-विवाद में
- (C) विचारों के समूह में
- (D) तर्क-वितर्क में

(vi) कवि का उद्घोष क्या है ?

- (A) हार स्वीकार कर लेने का
- (B) हार नहीं स्वीकारने का
- (C) जीवन भर हारते रहने का
- (D) पराजय में आनंदित होने का

(vii) 'उत्पातों' शब्द से कवि का अभिप्राय है :

- (A) उल्कापातों से
- (B) उपद्रवों से
- (C) ऊपर उठकर गिरने से
- (D) आमंत्रणों से

(viii) 'दुख की व्यथा सर्वव्यापी है' इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है :

- (A) सबके प्राण तड़पते हैं जाने-अनजाने
- (B) हार नहीं जीते जी मानूँगा
- (C) और लड़ूँगा उत्पातों से

(D) आघातों प्रत्याघातों में नया सत्य आएगा ।

Solution. (i) (B) घोर अँधेरा

(ii) (C) खुलकर

(iii) (A) मार्ग प्रशस्त करने के लिए अकेला ही आगे बढ़ गया।

(iv) (D) वह अमर नहीं होना चाहता था।

(v) (A) विघ्न बाधाओं में

(vi) (B) हार नहीं स्वीकारने का

(vii) (B) उपद्रवों से

(viii) (A) सबके प्राण तड़पते हैं जाने-अनजाने

(अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न)

Q.3. निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए :

(i) जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की सुंदरता होती है :

(A) छह ऋतुओं की छटा के समान

(B) इन्द्रधनुषी रंगों की छटा के समान

(C) वसंत ऋतु के दृश्यों के समान

(D) वर्षा की रिमझिम के समान

(ii) मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए आवश्यक होता है :

(A) भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना

(B) प्रकाशन में समय की चिन्ता से मुक्त रहना

(C) समय और स्थान के अनुशासन की चिन्ता न करना

(D) भाषा संबंधी अशुद्धियों पर गौर न करना

(iii) जब कोई बड़ी खबर तत्काल दर्शकों तक पहुँचाई जाती है, तो उसे कहते हैं :

- (A) लाइव
- (B) ब्रेकिंग न्यूज
- (C) एंकरबाइट
- (D) फोन-इन

(iv) केवल इन्टरनेट पर मौजूद अखबार का नाम है :

- (A) प्रभात खबर
- (B) हिंदुस्तान टाइम्स
- (C) प्रभासाक्षी
- (D) नवभारत टाइम्स

(v) सूचनाओं के साथ-साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिए जाने वाले सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन को कहते हैं:

- (A) आलेख
- (B) फ़ीचर
- (C) संपादकीय
- (D) विशेष लेखन

Solution. (i) (B) इन्द्रधनुषी रंगों की छटा के समान

(ii) (A) भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना

(iii) (B) ब्रेकिंग न्यूज

(iv) (C) प्रभासाक्षी

(v) (B) फ़ीचर

(पाठ्य-पुस्तक पर आधारित प्रश्न)

Q.4. निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए :

फरड़ कि कोदव बालि सुसाली । मुक्ता प्रसव कि संबुक काली ॥ सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ बिनु समुझें निज अघ परिपाकू । जारिउँ जायँ जननि

कहि काकू ॥ हृदयँ हेरि हारेउँ सब ओरा । एकहि भाँति भलेंहि भल मोरा ॥ गुर गोसाईं साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥

(i) काव्यांश में आए 'कोदव' का अर्थ है :

- (A) मोटा चावल
- (B) उत्तम अनाज
- (C) सुगंधित चावल
- (D) खाने योग्य चावल

(ii) कवि ने भरत के दुर्भाग्य की तुलना किससे की है ?

- (A) घनघोर बादल से
- (B) अथाह समुद्र से
- (C) विशाल पृथ्वी से
- (D) अचल नगराज से

(iii) 'जारिउँ जायँ जननि कहि काकू' का आशय है :

- (A) माता की बहुत सेवा की है
- (B) माता की आज्ञा का पालन नहीं किया है
- (C) माता को देखने नहीं गया
- (D) माता को कटुवचन कहकर बहुत सताया है

(iv) भरत स्वयं के जीवन में आने वाली स्थितियों के लिए दोषी मानते हैं :

- (A) माता कैकेयी को
- (B) राजा दशरथ को
- (C) अपने भाग्य को
- (D) दासी मंथरा को

(v) काव्यांश में किसके प्रेम का वर्णन है ?

- (A) भरत का कैकेयी के प्रति
- (B) राम का कौशल्या के प्रति
- (C) राम का कैकेयी के प्रति
- (D) भरत का राम के प्रति

Solution. (i) (B) इन्द्रधनुषी रंगों की छटा के समान

(ii) (A) भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना

(iii) (B) ब्रेकिंग न्यूज

(iv) (C) प्रभासाक्षी

(v) (B) फ़ीचर

Q.5. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए :

बूढ़ी माता, बोली "मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है ? ज़मीन-जायदाद तो सब चली ही गई । तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली ...।" "नहीं मायजी ! ज़मीन-जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं। जो है, वही बहुत है। टूट भी गई है, है तो आखिर बड़ी हवेली ही। 'सवांग' नहीं है, यह बात ठीक है! मगर, बड़ी बहुरिया का तो सारा गाँव ही परिवार है। हमारे गाँव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया । ... गाँव की लक्ष्मी गाँव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यों, देवर लोग हर बार आकर ले जाने की ज़िद करते हैं।"

(i) प्रस्तुत गद्यांश का संवाद किनके बीच का है ?

- (A) हरगोबिन और बड़ी बहुरिया के भाई के बीच का
- (B) हरगोबिन और बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ के बीच का
- (C) संवदिया और बड़ी बहुरिया के बीच का
- (D) हरगोबिन और संवदिया के बीच का

(ii) बूढ़ी माता के कथन में उसके मन का कौन-सा भाव प्रकट हो रहा है ?

- (A) ज़मीन-जायदाद का चले जाना
- (B) बेटी के अकेलेपन का दुख
- (C) तीनों देवरो का शहर में जा बसना
- (D) बेटी का कोई संरक्षक न होना

(iii) बूढ़ी माता की चिंता को हरगोबिन ने कैसे शांत किया ?

- (A) आत्म प्रशंसा करके
- (B) बड़ी हवेली का महत्व बताकर

- (C) बड़ी बहुरिया को सुखी बताकर
- (D) बड़ी बहुरिया को गाँव के परिवार का अंग बताकर
- (iv) हरगोबिन ने बड़ी हवेली का बड़प्पन क्यों बखाना ?
- (A) बूढ़ी माता को खुश करने के लिए
- (B) अपनी झूठ बोलने की आदत दिखाने के लिए
- (C) व्यवहार कुशलता दिखाने के लिए
- (D) बोलने की अपनी चतुरता दिखाने के लिए

- (v) "हमारे गाँव की लक्ष्मी है, बड़ी बहुरिया" हरगोबिन ने ऐसा क्यों कहा ?
- (A) बूढ़ी माँ को निरुत्तर करने के लिए
- (B) बूढ़ी माँ को बेटी की तरफ से चिंता मुक्त करने के लिए
- (C) बड़ी हवेली का महत्त्व बढ़ाने के लिए
- (D) बूढ़ी माँ को बड़ी हवेली ले जाने के लिए

Solution. (i) (B) हरगोबिन और बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ के बीच का

(ii) (B) बेटी के अकेलेपन का दुख

(iii) (D) बड़ी बहुरिया को गाँव के परिवार का अंग बताकर

(iv) (A) बूढ़ी माता को खुश करने के लिए

(v) (B) बूढ़ी माँ को बेटी की तरफ से चिंता मुक्त करने के लिए

(पूरक पाठ्य-पुस्तक पर आधारित प्रश्न)

Q.6. निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए :

- (i) "भैरों को दम के दम इतने रुपए मिल गए अब यह मौज उड़ाएगा ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो ज़िंदगी सफल हो जाती" यह कथन है :
- (A) भैरों का
- (B) सुभागी का
- (C) जगधर का
- (D) बजरंगी का

(ii) "सूरदास गर्म राख में कुछ टटोल रहा था" लेखक ने उसे अभिलाषाओं की राख क्यों कहा है ?

- (A) झोंपड़ी जलकर उसका फूस राख में परिवर्तित होने के कारण
- (B) ज़िंदगीभर की उसकी जमा पूँजी के नष्ट हो जाने के कारण
- (C) राख में पोटली न मिलने पर उसकी अभिलाषाओं का अंत होने के कारण
- (D) पोटली खोजने के प्रयास में पैर फिसल जाने से गहराई में गिर जाने के कारण

(iii) निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए :

कथन: गाँवों का जीवन सीधा-सादा होता है।

कारण : गाँवों में प्रकृति का स्वच्छंद और निर्मल रूप दिखाई देता है ।

विकल्प : (A) कथन सही है, लेकिन कारण ग़लत है।

(B) कथन ग़लत है, लेकिन कारण सही है।

(C) कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है। (D)

कथन सही है, लेकिन कारण, कथन की ग़लत व्याख्या करता है।

(iv) फूलों की गंध से अनेक बीमारियों से बचाव का उल्लेख :

- (A) एक परंपरा है
- (B) एक अंधविश्वास है
- (C) एक दंतकथा है
- (D) एक कही सुनी बात है

(v) नर्मदा नदी के चिढ़ने और तिनतिन फिनफिन करके बहने का कारण था :

- (A) उसके पानी का प्रदूषित हो जाना
- (B) उस पर विशाल बांध बनाया जाना
- (C) उसके पानी का दोहन किया जाना
- (D) उसके किनारे पर निर्माण किया जाना

(vi) 'बिस्कोहर की माटी' कथा के केंद्र में है :

- (A) फूल और फल
- (B) बिस्कोहर और बिसनाथ
- (C) गाँव और वातावरण
- (D) साँप और सब्जी

(vii) स्तंभ-I में दिए गए पदों को स्तंभ-II में दिए गए प्रतीकार्थों से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए :

स्तंभ-1	स्तंभ-II
1. ओंकारेश्वर	(i) बाँध
2. गाँधी सागर	(ii) पर्वत
3. कालीसिंध	(iii) नदी
4. जानापाव	(iv) तीर्थस्थल विकल्प :

- (A) 1-(i), 2-(iii), 3-(iv), 4-(ii)
(B) 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)
(C) 1-(iv), 2-(i), 3-(iii), 4-(ii)
(D) 1-(ii), 2-(iii), 3-(i), 4-(iv)

Solution. (i) (B) सुभागी का

(ii) (B) ज़िंदगीभर की उसकी जमा पूँजी के नष्ट हो जाने के कारण

(iii) (C) कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(iv) (B) एक अंधविश्वास है

(v) (B) उस पर विशाल बाँध बनाया जाना

(vi) (B) बिस्कोहर और बिसनाथ

(vii) (C) 1-(iv), 2-(i), 3-(iii), 4-(ii)

खण्ड ब (वर्णनात्मक प्रश्न)
(जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न)

Q.7. निम्नलिखित तीन शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए :

- (क) एशियाई खेलों (2023) में भारत का शानदार प्रदर्शन
(ख) बच्चों की दुनिया

(ग) मोटे अनाज: स्वास्थ्य के पोषक

Solution. (क) एशियाई खेलों (2023) में भारत का शानदार प्रदर्शन

2023 के एशियाई खेल भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। भारतीय एथलीटों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दुनिया को चौंका दिया। भारत ने विभिन्न खेलों में 100 से अधिक पदक जीते, जिसमें 20 स्वर्ण, 30 रजत और 50 कांस्य शामिल थे। भारत के खेल प्रतिनिधि, जैसे कि नीरज चोपड़ा, पूजा गहलोत, और मीराबाई चानू ने अपने खेल में अद्वितीय प्रदर्शन किया और पदक तालिका में भारत को शीर्ष स्थान पर पहुँचाया। इस जीत ने भारतीय खेल संस्कृति को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया।

(ख) बच्चों की दुनिया

बच्चों की दुनिया निश्चय ही एक अद्वितीय और मनमोहक स्थान है। उनकी मासूमियत, कल्पना, और जिज्ञासा जीवन को रंगीन बनाते हैं। वे खेल, कहानियाँ, और खिलौनों के माध्यम से अपनी सृजनात्मकता को प्रकट करते हैं। बच्चों की हँसी में विशेष प्रकार की मासूमियत और खुशी होती है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। उनका सहज स्वभाव और सरलता हमें जीवन की सच्ची खुशियों का अहसास कराती है। उनके विचार और कल्पनाएँ वयस्कों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होती हैं।

(ग) मोटे अनाज: स्वास्थ्य के पोषक

मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार, बाजरा, और रागी, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ये अनाज समृद्ध पोषक तत्वों जैसे कि फाइबर, प्रोटीन, और मिनेरल्स से भरपूर होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और हृदय रोगों के खतरे को कम करते हैं। मोटे अनाज का नियमित सेवन वजन नियंत्रण में मदद करता है और डायबिटीज के प्रबंधन में सहायक होता है। इन अनाजों में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भी होते हैं, जो शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं।

Q.8. निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए :

(क) साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कविता हमारे मन को क्यों छू लेती है ?

(ख) नाटक की घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों दिखाया जाता है ?

(ग) कहानी में संवाद के लिए किस प्रकार के संवादों को महत्वपूर्ण माना जाता है ?

Solution.(क) कविता की विशेषता उसकी संक्षिप्तता और गहन भावनाओं की अभिव्यक्ति में निहित है। कविता शब्दों के चयन, लय, और अनूठी छवियों के माध्यम से गहरे भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसकी संगीनी और विचारपूर्ण भाषा मन को तेजी से छूने की क्षमता रखती है, क्योंकि यह सीधे हृदय और आत्मा को प्रभावित करती है। कवि की भावनाएँ और दृष्टिकोण कविता में संक्षेप में, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होते हैं।

(ग) कहानी में संवादों का महत्व कहानी की प्रगति और पात्रों की गहराई को दर्शाने में होता है। महत्वपूर्ण संवाद वे होते हैं जो पात्रों की भावनाओं, व्यक्तित्व, और परस्पर संबंधों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। ये संवाद कहानी की क्रिया और संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, और पाठक को पात्रों की मानसिकता और स्थिति की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। उचित संवाद कथानक को सजीव और यथार्थपूर्ण बनाते हैं।

Q.9. निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर लगभग 60 शब्दों में उत्तर लिखिए :

(क) समाचार लेखन का छह ककारों से क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए ।

(ख) एक अच्छे साक्षात्कार के लिए किन बातों को आवश्यक माना जाता है ?

Solution. (क) समाचार लेखन में "छह ककार" (5Ws और 1H) एक महत्वपूर्ण मानक होते हैं। ये हैं:

1. Who (कौन?) – समाचार में कौन शामिल है?
2. What (क्या?) – घटना या मुद्दा क्या है?
3. When (कब?) – यह घटना कब हुई?
4. Where (कहाँ?) – यह घटना कहाँ घटी?
5. Why (क्यों?) – इस घटना का कारण क्या है?
6. How (कैसे?) – घटना कैसे घटी?

ये तत्व समाचार को पूर्ण, स्पष्ट और समझने योग्य बनाते हैं, जिससे पाठक को पूरी जानकारी मिलती है।

(ख) एक अच्छे साक्षात्कार के लिए किन बातों को आवश्यक माना जाता है?

एक अच्छे साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं:

1. साक्षात्कारकर्ता की तैयारी: विषय पर अच्छी तरह से शोध करें और साक्षात्कार के लिए स्पष्ट प्रश्न तैयार करें।
2. साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार: साक्षात्कार में ईमानदारी, आत्म-विश्वास और संवेदनशीलता बनाए रखें।
3. साक्षात्कारकर्ता का आत्म-नियंत्रण: साक्षात्कार के दौरान शांति और संयम बनाए रखें, और साक्षात्कारकर्ता को आरामदायक महसूस कराएं।
4. साक्षात्कारकर्ता की सुनने की क्षमता: साक्षात्कारकर्ता के उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनें और आवश्यकतानुसार सवालों को संशोधित करें।

(पाठ्य-पुस्तक पर आधारित प्रश्न)

पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए :

(क) यह 'दीप अकेला' कविता में कवि ने किस बात पर बल दिया है और क्यों ?

(ख) 'बारहमासा' कविता में कवि ने अगहन मास की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है और नायिका पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए ।

(ग) 'वसंत आया' कविता के आधार पर लिखिए कि वसंत आगमन की अनुभूति कवि को कैसे हुई और वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण उसने क्या बताया ?

Solution. (क) यह 'दीप अकेला' कविता में कवि ने किस बात पर बल दिया है और क्यों?

'दीप अकेला' कविता में कवि ने दीप की अकेलेपन और उसकी निरंतरता पर बल दिया है। दीप अकेला होते हुए भी अंधकार को दूर करता है, जैसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्य को निभाता है। कवि इस तथ्य को उजागर करना चाहता है कि अकेलापन और कठिन परिस्थितियाँ भी व्यक्ति की सच्ची महत्ता को कम नहीं कर सकतीं, बल्कि उसकी दृढ़ता और लगन को दर्शाती हैं।

(ख) 'बारहमासा' कविता में कवि ने अगहन मास की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है और नायिका पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है?

'बारहमासा' कविता में कवि ने अगहन मास की ठंडक, धुंध, और शीतलता का उल्लेख किया है। अगहन मास के इस मौसम में नायिका को ठंड से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इस मौसम की सर्दी और धुंध नायिका की तन्हाई और बेचैनी को बढ़ाते हैं, और उसके हृदय में गहरी भावनात्मक पीड़ा पैदा करते हैं।

Q.11. निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए

(क) के पतिआ लए जाएत रे मोरा पिअतम पास । हिए नहि सहए असह दुख रे भेल साओन मास ॥ एकसरि भवन पिआ बिनु रे मोहि रहलो न जाए । सखि अनकर दुख दारुन रे जग के पतिआए ॥ मोर मन हरि हर लए गेल रे अपनो मन गेल । गोकुल तेजि मधुपुर बस रे कन अपजस लेल ॥

अथवा

(ख) इस शहर में धूल धीरे-धीरे उड़ती है धीरे-धीरे चलते हैं लोग धीरे-धीरे बजते हैं घंटे शाम धीरे-धीरे होती है यह धीरे-धीरे होना धीरे-धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बाँधे है समुचे शहर को इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है कि गंगा वहीं है कि वहीं पर बँधी है नाव कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से

Solution. काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या

(क) काव्यांश:

(क) पतिआ लए जाएत रे मोरा पिअतम पास । हिए नहि सहए असह दुख रे भेल साओन मास ॥ एकसरि भवन पिआ बिनु रे मोहि रहलो न जाए । सखि अनकर दुख दारुन रे जग के पतिआए ॥ मोर मन हरि हर लए गेल रे अपनो मन गेल । गोकुल तेजि मधुपुर बस रे कन अपजस लेल ॥

प्रसंग:

यह काव्यांश कवि की व्यक्तिगत भावनाओं और पीड़ा को दर्शाता है, विशेष रूप से प्रेमी के बिना रहने की कष्टकारी स्थिति को। इस कविता में कवि ने अपने प्रेमी के बिना बिताए गए समय के दुख और सर्दी के मौसम की निराशाजनक स्थिति का वर्णन किया है। यह काव्यांश विशेष रूप से "साओन मास" (सावन का महीना) के समय की कठिनाइयों को चित्रित करता है जब कवि के दिल में प्रेमी की अनुपस्थिति के कारण गहन दुख और पीड़ा होती है।

व्याख्या:

इस काव्यांश में कवि अपने प्रिय के बिना होने की पीड़ा और दुख को व्यक्त करता है। कवि कहता है कि सावन का महीना (साओन मास) असहनीय दुख और दर्द लेकर आता है, क्योंकि इस मौसम में उसने अपने प्रिय के बिना समय बिताया है। उसे इस स्थिति में दुख की एक असहनीय अनुभूति हो रही है, जिसमें उसे न तो कहीं सुख की खोज मिल रही है और न ही अपने प्रिय के बिना वह अपना दिल थाम सकता है।

कवि इस समय को अत्यंत कठिन और दुःखद मानते हैं और अन्य लोगों के दुखों को भी देखते हैं, जो उनके अपने दुख के साथ जुड़ जाते हैं। कवि की भावनाएं गहन और सच्ची हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन की स्थिति को सच्चाई से उजागर किया है। इस तरह की कविता भावनात्मक गहराई और प्रेम की असहनीयता को उजागर करती है, जो प्रेमी की अनुपस्थिति में और भी बढ़ जाती है।

(ख) काव्यांश:

इस शहर में धूल धीरे-धीरे उड़ती है धीरे-धीरे चलते हैं लोग धीरे-धीरे बजते हैं घंटे शाम धीरे-धीरे होती है यह धीरे-धीरे होना धीरे-धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बाँधे हैं समुचे शहर को इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है कि गंगा वहीं है कि वहीं पर बँधी है नाव कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से

प्रसंग:

यह काव्यांश शहर के स्थायित्व, उसकी संरचना और वहाँ की धारा को दर्शाता है। कवि ने शहर की शांत और स्थिर लय को व्यक्त किया है, जहाँ समय की गति धीमी और स्थिर है। शहर की धूल, लोगों की चाल, घंटे की आवाज, और शाम की धीमी प्रक्रिया को कवि ने एक स्थिर और संयमित दृश्य में प्रस्तुत किया है।

व्याख्या:

काव्यांश शहर के स्थिर और नियमित जीवन को चित्रित करता है। कवि ने शहर की धूल और वहां के विभिन्न घटकों की धीमी गति का उल्लेख किया है, जिससे यह महसूस होता है कि शहर का जीवन धीरे-धीरे और स्थिरता से चलता है। यह धीरे-धीरे होने की लय और दृढ़ता को व्यक्त करता है, जिसमें कुछ भी अस्थिर नहीं होता।

कवि ने गंगा नदी और तुलसीदास की खड़ाऊँ का भी उल्लेख किया है, जो शहर के स्थायित्व और समय की निरंतरता को दर्शाते हैं। गंगा वही है, नाव वही बंधी है, और तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों वर्षों से वही रखी है। यह सब मिलकर यह दिखाता है कि शहर एक ठहराव और स्थिरता की स्थिति में है, जहाँ समय और घटनाएँ धीरे-धीरे होती हैं और कुछ भी हिलता या गिरता नहीं है।

Q.12. गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए :

(क) 'प्रेमघन की छाया स्मृति' पाठ के अनुसार हिन्दी-प्रेमियों की मंडली में किन लेखकों का नाम था ?

(ख) 'बालक बच गया' पाठ में बालक ने ईनाम में क्या माँगा और लेखक ने उससे क्या अनुभव किया ?

(ग) 'चार हाथ' कहानी के संदर्भ में लिखिए कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए पूँजीपतियों द्वारा कौन-कौन-से उपाय किए जाते हैं ?

Solution. (क) "प्रेमघन की छाया स्मृति" पाठ के अनुसार, हिन्दी-प्रेमियों की मंडली में प्रेमचंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे प्रसिद्ध लेखक शामिल थे। इन लेखकों ने हिन्दी साहित्य की समृद्धि और उसकी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

(ग) 'चार हाथ' कहानी में पूँजीपतियों द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए जाते हैं। ये उपाय नौकरशाही को भ्रष्ट करना, मुलाजिमों को दबाना, और सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाना शामिल हैं। पूँजीपतियों की यह रणनीति उनकी स्थिति और ताकत को बनाए रखने में मदद करती है।

Q.13. निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :

(क) मन नहीं मानता । नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति-सत्य है, नाम समाज-सत्य । नाम उस पद को कहते हैं कि जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे 'सोशल सेक्सन' कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि-मानव की चित्त-गंगा में स्नात । अथवा

Solution. गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या

इस गद्यांश में लेखक ने नाम और उसकी सामाजिक स्वीकृति के महत्व को स्पष्ट किया है। लेखक का कहना है कि एक नाम की वास्तविक महत्वता और प्रतिष्ठा उसके सामाजिक स्वीकृति से निर्धारित होती है, न कि नाम स्वयं से।

नाम और समाज: लेखक ने नाम को 'समाज-सत्य' और 'सामाजिक स्वीकृति' से जोड़ा है। इसका अर्थ है कि नाम तभी बड़ा और महत्वपूर्ण होता है जब समाज द्वारा उसकी मान्यता और स्वीकार्यता होती है। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम तब महत्वपूर्ण होता है जब उसे समाज के विभिन्न अंगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और उसे एक विशेष स्थान या पद पर रखा जाता है।

रूप और नाम: लेखक ने रूप को 'व्यक्ति-सत्य' कहा है, जो कि व्यक्ति की वास्तविकता और उसकी पहचान को दर्शाता है। इसके विपरीत, नाम 'समाज-सत्य' है, जो कि समाज की मान्यता और स्वीकृति को दर्शाता है।

आधुनिक संदर्भ: लेखक ने आधुनिक समाज में इसे 'सोशल सेक्सन' के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका मतलब है कि समाज के विभिन्न वर्गों में एक व्यक्ति का नाम और उसकी स्थिति की स्वीकृति कैसे मायने रखती है।

व्यक्तिगत भावना: लेखक ने यह भी कहा है कि उसका मन इस नाम के लिए व्याकुल है जो समाज और इतिहास द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित हो, अर्थात् ऐसा नाम जो न केवल समाज में महत्वपूर्ण हो, बल्कि इतिहास में भी उसकी पहचान और स्थान हो।

इस प्रकार, गद्यांश का मुख्य संदेश यह है कि नाम की वास्तविक महत्ता उसके सामाजिक स्वीकृति और मान्यता से ही निर्धारित होती है, और यह सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

(ख) भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज़ देखता था। दफ़्तर जाती भीड़, खरीद फ़रोख़्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज़ निराला था। इस भीड़ में एकसूत्रता थी। न यहाँ जाति का महत्त्व था, न भाषा का, महत्त्व उद्देश्य का था और वह सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था। बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर, विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है, उसके अंदर 'स्व' से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है, वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप, आत्माराम और निर्मलानंद है।

Solution. गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या:

यह गद्यांश एक विशेष प्रकार की भीड़ और उसके अनुभव का वर्णन करता है, जो सामान्य शहरी जीवन से अलग और विशेष है।

शहरी भीड़ और विशिष्टता: लेखक ने दिल्ली की भीड़ का परिचय दिया है, जिसमें रोज़ की सामान्य गतिविधियाँ और लोग शामिल होते हैं—दफ़्तर जाती भीड़, खरीदारी करती भीड़ आदि। लेकिन इस विशेष भीड़ की खास बात यह है कि इसमें एक विशेष "आंदाज़" और "एकसूत्रता" है।

सामाजिक भिन्नताएँ न होना: यहाँ जाति, भाषा आदि की परवाह नहीं है। सभी का "उद्देश्य" एक ही है—जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इसका मतलब यह है कि यह भीड़ समान उद्देश्य और भक्ति के साथ एकजुट है, जो आम जीवन में दिखाई नहीं देता।

स्नान और ध्यान का अंतर: सामान्यतः स्नान के समय लोग आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ स्नान करने वाले लोग ज़्यादा ध्यान में लीन हैं। एक व्यक्ति जो सूर्य की ओर उन्मुख होकर हाथ जोड़कर खड़ा है, उसकी स्थिति दर्शाती है कि वह अपने अहम को त्याग चुका है और आत्मिक शांति प्राप्त कर रहा है। उसका "विभोर" और "विनीत" भाव यह इंगित करता है कि उसने आत्मिक और भौतिक कुंठाओं से परे जाकर शुद्ध चेतना का अनुभव किया है।

आध्यात्मिक और भौतिक संसार का अंतर: इस विशेष भीड़ की विशेषता यह है कि इसमें "दौड़" और "अतिक्रमण" जैसी सामान्य शहरी समस्याएँ नहीं हैं। यहाँ ध्यान और आत्मा की शांति पर जोर है, जो आम जीवन की तात्कालिकता और सामग्रीवाद से परे है।

इस प्रकार, गद्यांश इस विशेष भीड़ की आध्यात्मिक और सामाजिक एकता को प्रस्तुत करता है, जो सामान्य शहर की भीड़ से अलग और अधिक शुद्ध है। यह भक्ति और ध्यान के वास्तविक अनुभव को दिखाता है, जो आत्मा की शांति और समर्पण की ओर ले जाता है।

(पूरक पाठ्य-पुस्तक पर आधारित प्रश्न)

Q.14. निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए :

(क) 'माँ के अंक में लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने की यात्रा मानव जन्म लेने की सार्थकता है।' इस कथन का आशय 'बिस्कोहर की माटी' पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए ।

अथवा

(ख) 'अपना मालवा खाऊ ..' पाठ से उद्धृत पंक्ति 'नदी का सदानीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है।' के संदर्भ में नदियों का जीवन में महत्त्व स्पष्ट कीजिए । मनुष्य नदियों को क्षति कैसे पहुँचा रहा है ?

Solution.(ख) नदियाँ जीवन के स्रोत होती हैं क्योंकि वे जल, जीवन की मूलभूत आवश्यकता, प्रदान करती हैं। उनका सदानीरा रहना सुनिश्चित करता है कि जल का निरंतर प्रवाह बना रहे, जिससे कृषि, पीने का पानी, और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता बनी रहती है।

मनुष्य नदियों को क्षति विभिन्न तरीकों से पहुँचा रहा है। औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, और अति जल दोहन के कारण नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है। नदी तटों पर अतिक्रमण और प्रदूषण ने भी नदियों की गुणवत्ता और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाया है, जिससे नदियों की जीवनदायिनी भूमिका खतरे में है।